



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 328]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 9, 1995/ज्येष्ठ 19, 1917

No. 328]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 9, 1995/JYAISTHA 19, 1917

रेल मंत्रालय  
(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जून, 1995

का.आ. 512 (अ) :— रेल अधिनियम, 1989 (1989 की संध्या 24) की धारा 89 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार इस संबंध में संतुष्ट होने पर कि केवल माल ले जाने के लिए निर्धारित गाड़ियों में किसी स्टेशन के लिए बुक किया गया माल बिना किसी विलंब के ऐसे रेलवे स्टेशन से हटाया जाना आवश्यक है और उस उप धारा के पहले परंतुक में विनिर्दिष्ट तथ्यों को ध्यान में रखते हुए एतद्द्वारा निम्नलिखित रेलवे स्टेशनों को 15-6-1995 से छः महीनों की अवधि के लिए "अधिसूचित स्टेशन" घोषित करती है :—

1. बंबई (बाही बंदर)
2. पुणे
3. नागपुर
4. इतवारी
5. बेलनगज
6. जयलपुर

7. अहमद नगर
8. खालियर
9. भोपाल
10. फरीदाबाद
11. मथुरा जंक्शन
12. जलगांव
13. अकोला
14. नासिक रोड
15. सोलापुर
16. नलभगद
17. कल्याण
18. सतना
19. नया मुलंद गुड्स शेड
20. बरहारगाह
21. झांसी
22. खंडवा
23. मनसाह
24. पाचोरा
25. हावड़ा पासल
26. हावरा
27. सियालबंद

28. उस्टाडांगा	77. रामपुर
29. आमनसोव	78. शाहजहांपुर
30. धनबाद	79. चंदोसी
31. गया	80. धामसगंज
32. भागलपुर	81. हरथला
33. नैहाटी जंक्शन	82. दिल्ली शाहदरा
34. कल्याणी	83. मन्जी मंडी
35. बालीगंज	84. नया आजादपुर
36. नया अलीपुर (कलकत्ता)	85. ओखला
37. बज-बज	86. करनाल
38. बर्धमान	87. नांगलौई
39. सैधिया	88. चनेहटी
40. राम किस्तापुर	89. नारायणपुर अनन्त
41. हबड़ा गुड्स	90. गोरखपुर (ब. ला.)
42. काशीपुर रोड	91. ह्वालीपुर
43. लक्ष्मीकांतपुर	92. दरभंगा जंक्शन (मी. ला.)
44. राजेन्द्र नगर गुड्स (पटना)	93. मऊ जंक्शन (ब. ला.)
45. चित्तपुर	94. न्यू बोंगाईगांव (ब. ला.)
46. कानपुर सेंट्रल गुड्स शेड (बड़ी लाइन)	95. न्यू बोंगाई गांव (मी. ला.)
47. रोहतास	96. तिनमुक्तिया गुड्स
48. अलीगढ़	97. न्यू गृवहाटी (ब. ला.)
49. अम्बाला छावनी	98. न्यू गुवाहाटी (मी. ला.)
50. अमृतसर	99. जलपाईगुड़ी (ब. ला.)
51. बरेली	100. न्यू जलपाईगुड़ी (मी. ला.)
52. श्री गंगानगर	101. सिलचर
53. देहरादून	102. दीमापुर
54. गाजियाबाद	103. धर्मनगर
55. हरिद्वार	104. उत्तर लखीमपुर
56. जम्मू तबी	105. करीमगंज
57. जालंधर सिटी	106. मिरलीगुड़ी टाउन (गुड्स)
58. लुधियाना	107. कटिहार
59. लखनऊ	108. मद्रास पासल
60. मेरठ मंडी	109. न्यू पार्सल काम्पलेक्स (माल्ट कोटमें)
61. मुगदाबाद	110. मद्रास माल्ट कोटमें
62. वाराणसी	111. रायपुरम
63. सहारनपुर	112. कालीकट
64. मुजफ्फरनगर	113. एनफिल्डम गुड्स
65. जगधरी	114. कोल्लम (ब. ला. और मी. ला. गुड्स)
66. पटियाला	115. मैसूर
67. भटिंडा	116. कोचीन हार्बर टर्मिनल
68. शकुंर्यस्ती	117. कुडालनगर
69. नुगलकाबाद	118. त्रिचूर
70. डंडारीकलां	119. तिरुचिरापल्ली गुड्स (ब. ला. और मी. ला.)
71. रायबरेली	120. कोयम्बटूर जंक्शन (ब. ला. गुड्स)
72. हिसार	121. कोयम्बटूर नार्थ जंक्शन
73. अयोध्या	122. उरुगुड जंक्शन
74. पानीपत	123. मंगलोर
75. दिल्ली किशनगंज	124. मेटलाइट गुड्स टर्मिनल/क्वाट फील्ड
76. फिरोजाबाद	125. वययापानाहली

- |   |  |
|---|--|
| 126. सेवम मार्केट (ब.ला. और मी.ला. गुड्स) | 175. पुरुनिया                          |
| 127. सेलम जंक्शन                          | 176. बनकुरा                            |
| 128. अरक्कोणम (ब.ला.)                     | 177. चक्रधरपुर                         |
| 129. काटपाडि (ब.ला.)                      | 178. आरमगुड़ा                          |
| 130. दिण्डीगुल (ब.ला.)                    | 179. मन्वलपुर                          |
| 131. विश्वदनगर (ब.ला.)                    | 180. टाटीसिलवाटं                       |
| 132. विजयवाड़ा                            | 181. वीकारो न्टील सिटी                 |
| 133. कोल्हापुर (जी आर एम टी)              | 182. राउरकेला                          |
| 134. सनल नगर लू गुड्स काम्प्लैक्स         | 183. रायगढ़                            |
| 135. काचीगुड़ा                            | 184. बिलासपुर                          |
| 136. निजामाबाद                            | 185. बर्नपुर                           |
| 137. श्रीरंगाबाद                          | 186. द्रुर्ग                           |
| 138. सानबोडेम                             | 187. रायपुर                            |
| 139. हुबली                                | 188. गोंदिया                           |
| 140. वारंगल                               | 189. राजनंदगांव                        |
| 141. गुटूर                                | 190. अंधेरी (गुड्स)                    |
| 142. राजमुठी                              | 191. बंबई सेल (सामान)                  |
| 143. नांदेड                               | 192. असारवा जंक्शन (मी.ला.)            |
| 144. बेलगाव                               | 193. कांकरिया                          |
| 145. गुड्ग                                | 194. बडोदरा जंक्शन                     |
| 146. मांडगांव                             | 195. पार्सल डिपो गंट रोड               |
| 147. प्रभानी                              | 196. हापा                              |
| 148. कहाबूब नगर                           | 197. सूरत (गुड्स एवं पार्सल)           |
| 149. आदिलाबाद                             | 198. अहमदाबाद (ब.ला. और मी.ला. पार्सल) |
| 150. एम एल वार्ड (टी एस)                  | 199. आनंद                              |
| 151. जालना                                | 200. नडियाड                            |
| 152. मिरज                                 | 201. रतलाम                             |
| 153. बेल्हारी (ब.ला.)                     | 202. इंदौर                             |
| 154. अकोला (मी.ला.)                       | 203. उज्जैन                            |
| 155. बेल्हारी (मी.ला.)                    | 204. कोटा                              |
| 156. कुर्नूल टाउन                         | 205. आगरा फोर्ट                        |
| 157. कुड्डापाह                            | 206. जयपुर                             |
| 158. रेणिंगटा                             | 207. अलवर                              |
| 159. रायचूर                               | 208. अजमेर                             |
| 160. नंदयाल                               | 209. उदयपुर सिटी                       |
| 161. चिन्तोर                              | 210. आठू रोड                           |
| 162. सांगरी                               | 211. पालमपुर                           |
| 163. गटकल (ब.ला. और मी.ला.)               | 212. गांधीधाम                          |
| 164. होसपेट (ब.ला.)                       | 213. भावनगर टर्मिनल                    |
| 165. अदानी                                | 214. जूनागढ़                           |
| 166. शालीमार                              | 215. राजकोट                            |
| 167. रांची                                | 216. विडमिल                            |
| 168. टाटानगर                              | 217. भीलवाड़ा                          |
| 169. उलवेडिया                             | 218. भरुच                              |
| 170. खड्गपुर                              | 219. गोधरा                             |
| 171. मिदनापुर                             | 220. देवास                             |
| 172. नागपुर                               | 221. बलसाह                             |
| 173. बालासोर                              | 222. लक्ष्मीबाई नगर                    |
| 174. कटक                                  | 223. दहर का बाला जी                    |

224. नया भुज  
225. जवाई बंध  
226. सिरोही रोड  
227. नारनौल  
228. जोगेश्वरी (ए. टी.)  
229. वापी

[सं. टी. सी. 1/95/223/1]

फेलिक्स कुल्लु, संयुक्त सचिव

Ministry of Railways

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th June, 1995

S.O. 512(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 89 of the Railways Act, 1989 (No. 24 of 1989), the Central Government, being satisfied that it is necessary that the goods booked by trains intended solely for the carriage of goods to any Railway Station should be removed without delay from such Railway Station and having regard to the factors specified in the first proviso to that sub-section, hereby declares the following Railway Stations as 'Notified Station' for a period of six months with effect from 15-6-95 namely :—

1. Bombay (Wadi Bandar)
2. Pune
3. Nagpur
4. Itwari
5. Belanganj
6. Jabalpur
7. Ahmednagar
8. Gwalior
9. Bhopal
10. Faridabad
11. Mathura Junction
12. Jalgaon
13. Akola
14. Nasik Road
15. Solapur
16. Ballabgarh
17. Kalyan
18. Satna
19. New Mulund Goods Shed
20. Balharshah
21. Jhansi
22. Khandwa
23. Manmad
24. Pachora
25. Howrah Parcel
26. Habra

27. Sealdah
28. Ultadanga
29. Asansol
30. Dhanbad
31. Gaya
32. Bhagalpur (B.G.)
33. Naihati Junction
34. Kalyani
35. Ballygunge
36. New Alipur (Calcutta)
37. Budge Budge
38. Bardhaman
39. Sainthia
40. Rankistopur
41. Howrah Goods
42. Cossipore Road
43. Lakshmikantapur
44. Rajendra Nagar Goods (Patna)
45. Chitpur
46. Kanpur Central Goods Shed B.G.
47. Rohtak
48. Aligarh
49. Ambala Cantt.
50. Amritsar
51. Bareilly
52. Sriganaganagar
53. Dehradun
54. Gaziabad
55. Haridwar
56. Jammu Tawi
57. Jalandhar City
58. Ludhiana
59. Lucknow
60. Meerut Mandi
61. Moradabad
62. Varanasi
63. Saharanpur
64. Muzaffar Nagar
65. Jagadhri
66. Patiala
67. Bhatinda
68. Shakurbasti
69. Tughlakabad
70. Dhandari Kalan
71. Rae Bareilly
72. Hisar
73. Ayodhya
74. Panipat
75. Delhi Kishanganj
76. Firozabad
77. Rampur
78. Shahjahanpur
79. Chandausi

- |   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| 80. Thomsonganj                           | 132. Vijayawada                   |
| 81. Harthala                              | 133. Kolhapur (GRMT)              |
| 82. Delhi Shahadara                       | 134. Sapatnagar New Goods Complex |
| 83. Subzi Mandi                           | 135. Kacheguda                    |
| 84. Naya Azadpur                          | 136. Nizamabad                    |
| 85. Okhla                                 | 137. Aurangabad                   |
| 86. Karnal                                | 138. Sanvordem                    |
| 87. Nangloi                               | 139. Hubli                        |
| 88. Chaneti                               | 140. Warangal                     |
| 89. Narayanpur Anant                      | 141. Guntur                       |
| 90. Gorakhpur (B.G.)                      | 142. Rajamundry                   |
| 91. Hajipur                               | 143. Nanded                       |
| 92. Darbanga Jn. (M.G.)                   | 144. Belagaum                     |
| 93. Mau Jn.                               | 145. Gadag                        |
| 94. New Bongaigaon (B.G.)                 | 146. Madgaon                      |
| 95. New Bongaigaon (M.G.)                 | 147. Parbhani                     |
| 96. Tinsukia Goods                        | 148. Kahabobnagar                 |
| 97. New Gauhati (B.G.)                    | 149. Adilabad                     |
| 98. New Gauhati (M.G.)                    | 150. Mly (TS)                     |
| 99. New Jalpaiguri (B.G.)                 | 151. Jalna                        |
| 100. New Jalpaiguri (M. G.)               | 152. Miraj                        |
| 101. Silchar                              | 153. Bellary (BG)                 |
| 102. Dimapur                              | 154. Akola (MG)                   |
| 103. Dharmanagar                          | 155. Bellary (MG)                 |
| 104. North Lakhimpur                      | 156. Kurnool Town                 |
| 105. Karimganj                            | 157. Cuddappah                    |
| 106. Siliguri Town (Goods)                | 158. Renigunta                    |
| 107. Katihar                              | 159. Raichur                      |
| 108. Madras Parcel                        | 160. Nandyal                      |
| 109. New Parcel Complex<br>(Salt Cotaurs) | 161. Chittoor                     |
| 110. Madras Salt Cotaurs                  | 162. Sangli                       |
| 111. Royapuram                            | 163. Guntakal (BG & MG)           |
| 112. Calicut                              | 164. Hospet                       |
| 113. Ernakulam Goods                      | 165. Adoni                        |
| 114. Quilon (BG & MG Goods)               | 166. Shalimar                     |
| 115. Mysore                               | 167. Ranchi                       |
| 116. Cochin Harbour Terminus              | 168. Tatanagar                    |
| 117. KudaInagar                           | 169. Ulubaria                     |
| 118. Trichur                              | 170. Kharagpur                    |
| 119. Trichirapalli Goods (BG & MG)        | 171. Midnapur                     |
| 120. Coimbatore Jn. (BG Goods)            | 172. Nagpur                       |
| 121. Coimbatore North Jn.                 | 173. Ballasore                    |
| 122. Erode Junction                       | 174. Cuttack                      |
| 123. Mangalore                            | 175. Purulia                      |
| 124. Satellite Goods Terminal Whitefield. | 176. Bankura                      |
| 125. Baiyappanahalli                      | 177. Chakradharpur                |
| 126. Salem Market (BG & MG Goods)         | 178. Jharsuguda                   |
| 127. Salem Junction                       | 179. Sambalpur                    |
| 128. Arkkonam (BG)                        | 180. Tatisilwai                   |
| 129. Katpadi (BG)                         | 181. Bokaro Steel City            |
| 130. Dindigul (BG)                        | 182. Rourkela                     |
| 131. Virudhnagar (BG)                     | 183. Raigarh                      |
|   | 184. Bilastar                     |

185. Burnpur	209. Udaipur City
186. Durg	210. Abu Road
187. Raipur	211. Palanpur
188. Gondia (B.G.)	212. Gandhidham
189. Rajnandgaon	213. Bhavnagar Terminus
190. Andheri (Goods)	214. Junagadh
191. Bombay Central (Luggage)	215. Rajkot
192. Asarva Junction (M.G.)	216. Wind Mill
193. Kankaria	217. Bhilwara
194. Vadodara Junction	218. Bharuch
195. Parcel Depot Grant Road	219. Godhra
196. Hapa	220. Dewas
197. Surat (Goods & Parcel)	221. Valsad
198. Ahmedabad (BG & MG) Parcel	222. Laxmibai Nagar
199. Anand	223. Dahar-Ka-Balaji
200. Nadiad	224. New Bhuj
201. Ratlam	225. Jawai Bandh
202. Indore	226. Sirohi Road
203. Ujjain	227. Narnaul
204. Kota	228. Jogeshwari (AT)
205. Agra Fort	229. Vapi
206. Jaipur	
207. Alwar	
208. Ajmer	

[No. TC-I/95/223/1]

FELIX KULLU. Jt. Secy.